

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2018—कार्तिक 7, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना
भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-2-2018-एक-4.—सन् 2019 में निम्नलिखित सामान्य (जनरल) छुट्टियां मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं में मनाई जायेंगी:—

सामान्य (जनरल) छुट्टियां

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
समस्त रविवार					
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1940	शनिवार
2	संत रविदास जयन्ती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1940	मंगलवार
3	महाशिवरात्रि	एक	04 मार्च	फाल्गुन 13, 1940	सोमवार
4	होली	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
5	गुड़ी पड़वा/चैती चांद	एक	06 अप्रैल	चैत्र 16, 1941	शनिवार
6	रामनवमी	एक	13 अप्रैल	चैत्र 23, 1941	शनिवार
7	महावीर जयन्ती	एक	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1941	बुधवार
8	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)	एक	19 अप्रैल	चैत्र 29, 1941	शुक्रवार
9	परशुराम जयन्ती	एक	07 मई	वैशाख 17, 1941	मंगलवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	एक	18 मई	वैशाख 28, 1941	शनिवार
11	ईद-उल-फित्	एक	05 जून	ज्येष्ठ 15, 1941	बुधवार
12	ईदुज्जुहा	एक	12 अगस्त	श्रावण 21, 1941	सोमवार
13	स्वतंत्रता दिवस/रक्षाबंधन	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1941	गुरुवार
14	जन्माष्टमी	एक	23 अगस्त	भाद्रपद 01, 1941	शुक्रवार
15	मोहर्रम	एक	10 सितम्बर	भाद्रपद 19, 1941	मंगलवार
16	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1941	बुधवार
17	दशहरा (विजयादशमी)	एक	08 अक्टूबर	आश्विन 16, 1941	मंगलवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	गुरुनानक जयन्ती	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1941	मंगलवार
19	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)	एक	25 दिसम्बर	पौष 04, 1941	बुधवार

टीप .— (1) इस विषय में कोषागार एवं उप-कोषागार निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना से नियंत्रित होंगे।

(2)	डॉ. अम्बेडकर जयन्ती/वैशाखी	14	अप्रैल	चैत्र 24, 1941
	महर्षि वाल्मीकी जयन्ती	13	अक्टूबर	आश्विन 21, 1941
	दीपावली	27	अक्टूबर	कार्तिक 05, 1941
	मिलाद-उन-नबी	10	नवम्बर	कार्तिक 19, 1941

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-2-2018-एक-4.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. 20-25-56-पब-एक, दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत सार्वजनिक छुट्टियों में पहले से शामिल सभी रविवारों के अतिरिक्त निम्न अनुसूची में उल्लिखित दिन भी सन् 2019 के लिए सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सार्वजनिक अवकाश के दिन होंगे :—

अनुसूची

स.क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गणतंत्र दिवस	एक	26 जनवरी	माघ 06, 1940	शनिवार
2	महाशिवरात्रि	एक	04 मार्च	फाल्गुन 13, 1940	सोमवार
3	होली	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
4	बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी	एक	01 अप्रैल	चैत्र 11, 1941	सोमवार
5	रामनवमी	एक	13 अप्रैल	चैत्र 23, 1941	शनिवार
6	महावीर जयन्ती	एक	17 अप्रैल	चैत्र 27, 1941	बुधवार
7	पुण्य शुक्रवार (गुड फ्रायडे)	एक	19 अप्रैल	चैत्र 29, 1941	शुक्रवार
8	बुद्ध पूर्णिमा	एक	18 मई	वैशाख 28, 1941	शनिवार
9	ईद-उल-फित्	एक	05 जून	ज्येष्ठ 15, 1941	बुधवार
10	ईदुज्जुहा	एक	12 अगस्त	श्रावण 21, 1941	सोमवार
11	स्वतंत्रता दिवस/रक्षाबन्धन	एक	15 अगस्त	श्रावण 24, 1941	गुरुवार
12	मोहरम	एक	10 सितम्बर	भाद्रपद 19, 1941	मंगलवार
13	गांधी जयन्ती	एक	02 अक्टूबर	आश्विन 10, 1941	बुधवार
14	दशहरा (विजयादशमी)	एक	8 अक्टूबर	आश्विन 16, 1941	मंगलवार
15	गुरुनानक जयन्ती	एक	12 नवम्बर	कार्तिक 21, 1941	मंगलवार
16	ख्रिस्त जयन्ती (क्रिसमस)	एक	25 दिसम्बर	पौष 04, 1941	बुधवार

टीप .— दीपावली 27 अक्टूबर कार्तिक 05, 1941
मिलाद-उल-नबी 10 नवम्बर कार्तिक 19, 1941

ये दिन रविवार होने के कारण अलग से छुट्टी के दिन घोषित नहीं किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2018
ऐच्छिक (आप्तानल) छुट्टियां

स. क्र.	छुट्टी का नाम	घोषित छुट्टियों की संख्या	ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह के दिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नववर्ष दिवस	एक	01 जनवरी	पौष 11, 1940	मंगलवार
2	मकर संक्रांति	एक	14 जनवरी	पौष 24, 1940	सोमवार
3	पोंगल	एक	15 जनवरी	पौष 25, 1940	मंगलवार
4	हेमू कालाणी का शहीदी दिवस	एक	21 जनवरी	माघ 01, 1940	सोमवार
5	देव नारायण जयन्ती	एक	11 फरवरी	माघ 22, 1940	सोमवार
6	नर्मदा जयन्ती	एक	12 फरवरी	माघ 23, 1940	मंगलवार
7	स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस.	एक	18 फरवरी	माघ 29, 1940	सोमवार
8	छत्रपति शिवाजी जयन्ती	एक	19 फरवरी	माघ 30, 1940	मंगलवार
9	महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस	एक	01 मार्च	फाल्गुन 10, 1940	शुक्रवार
10	होली (होलिका दहन)/ वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस.	एक	20 मार्च	फाल्गुन 29, 1940	बुधवार
11	हजरत अली का जन्म दिवस	एक	21 मार्च	फाल्गुन 30, 1940	गुरुवार
12	भाईदूज	एक	22 मार्च	चैत्र 01, 1941	शुक्रवार
13	निषादराज जयन्ती	एक	10 अप्रैल	चैत्र 20, 1941	बुधवार
14	महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती	एक	11 अप्रैल	चैत्र 21, 1941	गुरुवार
15	विशु/शब-ए-बारात	एक	15 अप्रैल	चैत्र 25, 1941	सोमवार
16	हाटकेश्वर जयन्ती	एक	18 अप्रैल	चैत्र 28, 1941	गुरुवार
17	वल्लभाचार्य जयन्ती	एक	30 अप्रैल	वैशाख 10, 1941	मंगलवार
18	सेन जयन्ती	एक	01 मई	वैशाख 11, 1941	बुधवार
19	अक्षय तृतीया	एक	07 मई	वैशाख 17, 1941	मंगलवार
20	शंकराचार्य जयन्ती	एक	09 मई	वैशाख 19, 1941	गुरुवार
21	जमात-उल-विदा	एक	31 मई	ज्येष्ठ 10, 1941	शुक्रवार
22	ईद-उल फितर (के ठीक पूर्व का दिवस).	एक	04 जून	ज्येष्ठ 14, 1941	मंगलवार
23	छत्रसाल जयन्ती / महाराणा प्रताप जयन्ती.	एक	06 जून	ज्येष्ठ 16, 1941	गुरुवार
24	महेश जयन्ती	एक	11 जून	ज्येष्ठ 21, 1941	मंगलवार
25	बड़ा महादेव पूजन	एक	15 जून	ज्येष्ठ 25, 1941	शनिवार
26	कबीर जयन्ती	एक	17 जून	ज्येष्ठ 27, 1941	सोमवार
27	वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस	एक	24 जून	आषाढ़ 03, 1941	सोमवार
28	रथयात्रा	एक	04 जुलाई	आषाढ़ 13, 1941	गुरुवार
29	गुरुपूर्णिमा	एक	16 जुलाई	आषाढ़ 25, 1941	मंगलवार
30	नागपंचमी	एक	05 अगस्त	श्रावण 14, 1941	सोमवार
31	गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती	एक	07 अगस्त	श्रावण 16, 1941	बुधवार
32	आदिवासी दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1941	शुक्रवार
33	दुर्गादास राठौर जयन्ती	एक	13 अगस्त	श्रावण 22, 1941	मंगलवार
34	पारसी नववर्ष दिवस	एक	17 अगस्त	श्रावण 26, 1941	शनिवार
35	गदीर-ए-खुम	एक	19 अगस्त	श्रावण 28, 1941	सोमवार
36	बलराम जयन्ती	एक	21 अगस्त	श्रावण 30, 1941	बुधवार
37	गणेश चतुर्थी	एक	02 सितम्बर	भाद्रपद 11, 1941	सोमवार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
38	नवाखाई	एक	05 सितम्बर	भाद्रपद 14, 1941	गुरुवार
39	डोलग्यारस/योम-ए-अशुरा	एक	09 सितम्बर	भाद्रपद 18, 1941	सोमवार
40	ओणम	एक	11 सितम्बर	भाद्रपद 20, 1941	बुधवार
41	अनंत चतुर्दशी	एक	12 सितम्बर	भाद्रपद 21, 1941	गुरुवार
42	विश्वकर्मा जयन्ती	एक	17 सितम्बर	भाद्रपद 26, 1941	मंगलवार
43	राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस.	एक	18 सितम्बर	भाद्रपद 27, 1941	बुधवार
44	प्राणनाथ जयन्ती	एक	27 सितम्बर	आश्विन 05, 1941	शुक्रवार
45	सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या	एक	28 सितम्बर	आश्विन 06, 1941	शनिवार
46	दशहरा (महानवमी)	एक	07 अक्टूबर	आश्विन 15, 1941	सोमवार
47	करवा चौथ पर्व	एक	17 अक्टूबर	आश्विन 25, 1941	गुरुवार
48	दीपावली (दक्षिण भारतीय)	एक	26 अक्टूबर	कार्तिक 04, 1941	शनिवार
49	दीपावली का दूसरा दिन	एक	28 अक्टूबर	कार्तिक 06, 1941	सोमवार
50	भाईदूज	एक	29 अक्टूबर	कार्तिक 07, 1941	मंगलवार
51	नामदेव जयन्ती	एक	08 नवम्बर	कार्तिक 17, 1941	शुक्रवार
52	बिरसा मुंडा जयन्ती	एक	15 नवम्बर	कार्तिक 24, 1941	शुक्रवार
53	झलकारी जयन्ती	एक	22 नवम्बर	अग्रहायण 01, 1941	शुक्रवार
54	संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती	एक	03 दिसम्बर	अग्रहायण 12, 1941	मंगलवार
55	दत्तात्रय जयन्ती	एक	11 दिसम्बर	अग्रहायण 20, 1941	बुधवार
56	डॉ. सैय्यदना साहब का जन्म दिवस	एक	17 दिसम्बर	अग्रहायण 26, 1941	मंगलवार
57	गुरु घासीदास जयन्ती	एक	18 दिसम्बर	अग्रहायण 27, 1941	बुधवार
58	बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती	एक	31 दिसम्बर	पौष 10, 1941	मंगलवार

टीप — (1) प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इन 58 ऐच्छिक छुट्टियों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन की छुट्टियां दी जायेंगी, उससे अधिक नहीं.

(2) निम्नलिखित त्यौहार / जयन्तियां आदि रविवार को पड़ने के कारण इन्हें ऐच्छिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है :-

स.क्र.	छुट्टी का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस	06 जनवरी	पौष 16, 1940
2	गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस	13 जनवरी	पौष 23, 1940
3	बसंत पंचमी	10 फरवरी	माघ 21, 1940
4	शबरी जयन्ती	24 फरवरी	फाल्गुन 05, 1940
5	भक्त माता कर्मा जयन्ती	31 मार्च	चैत्र 10, 1941
6	बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस	09 जून	ज्येष्ठ 19, 1941
7	ईद-उल अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)	11 अगस्त	श्रावण 20, 1941
8	अग्रसेन जयन्ती	29 सितम्बर	आश्विन 07, 1941
9	दशहरा (महाअष्टमी)	06 अक्टूबर	आश्विन 14, 1941
10	महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव	13 अक्टूबर	आश्विन 21, 1941
11	भगवान सहस्रबाहु जयन्ती	03 नवम्बर	कार्तिक 12, 1941
12	गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस	24 नवम्बर	अग्रहायण 03, 1941

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.